

सवाल-जवाब करने के तरीके: पेटालुमा 2019

जो बाबा जी से सवाल पूछना चाहते हैं, उनका चुनाव हर सत्संग वाले दिन एक लॉटरी के जरिये किया जायेगा। **चुनाव एरिया हर रोज़ सुबह 7:00 बजे खुलेगा और 8:00 बजे पर बंद होगा। कृपया नोट करें की यह बंद होने का समय 8:15 से बदल दिया गया है।** एरिया बंद होने के बाद लॉटरी के जरिये सवाल पूछने वालों को चुना जायेगा। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हॉल में अपनी सीट रखकर, सवाल-जवाब चुनाव एरिया, हॉल के पिछली तरफ़ आ जाएँ। अगर आप को सवाल पूछने के लिए नहीं चुना जाता है, तो आप अपनी सीट पर वापस चले जाएँ। चुनाव की प्रतिक्रिया ख़तम होने के बाद, कोइ भी सवाल-जवाब की लाइन में नहीं लगेँ।

अगर सवाल अंग्रेज़ी, हिंदी या पंजाबी में न हों:

अगर आप अंग्रेज़ी, हिंदी या पंजाबी के इलावा किसी और भाषा में सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल लिखकर अनुवाद एरिया (ट्रांसलेशन स्टेशन) पर ले आएँ। यह ट्रांसलेशन एरिया, हॉल के पिछली तरफ़ सवाल-जवाब के लिए चुनाव वाली जगह पर होगा। अनुवादक सेवादार आप के सवाल का अनुवाद करके, बड़े अक्षरों में एक खास फॉर्म पर लिख देंगे। अगर आपको लगता है कि आप क़ी भाषा का अनुवादक नहीं होगा तो आप अपना सवाल पहले से किसी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करवा कर अपने साथ ले आएँ। एक बार आप को अनुवाद किया हुआ सवाल एक स्पेशल फॉर्म पर मिल जाए तो उस फॉर्म को ले कर आप सवाल-जवाब चुनाव एरिया में आ जाएँ।

सवाल जवाब के लिए हिदायतें:

डेरें से सवाल जवाब के बारे में नीचे लिखी जानकारी सब को देने के लिए कहा गया है।

1. सवाल पूछने वालों की उम्र 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिये।
2. सवाल छोटे और स्पष्ट होने चाहिये।
3. सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहिये।
4. सवाल सिर्फ़ रुहानियत के बारे में होने चाहिये ना की निजी, आर्थिक, सेहत, पारिवारिक या राजनीतिक समस्याओं के बारे में।
5. दूसरों कि ओर से सवाल ना पूछें।
6. लम्बे नोट, कविताएँ या चिट्ठियाँ ना पढ़ें।
7. जब बाबा जी आप के सवाल का जवाब दे रहें हों तो उनको बीच में ना टोकें। आप कुछ बोलने से पहले, आप उनको अपनी बात ख़तम करने दें।

अगर दो भाषाओं के लिए अलग अलग माइक्रोफोन हुए तो आप को उस लाइन में रखा जायेगा जिस लाइन की भाषा में आप सवाल पूछना चाहते हैं। आप को उसी भाषा में सवाल पूछना चाहिए।

कृपया याद रखें कि बाबा जी को उनकी सेहत, उनके परिवार या उनके वेश के बारे में सवाल न करें और ना ही नई फोटो और रिकॉर्डिंग के बारे में कोइ सवाल करें। बाबा जी हमें याद दिलाते हैं कि यह मार्ग शिक्षा के बारे है ना की व्यक्तित्व या भौतिक रूप के बारे में। डेरें से मिली हुई इन हिदायतों का पालन करके, हम अपना शुक्राना ज़ाहिर करें।

संगत के लिए निवेदन:

1. सत्संग प्रोग्राम के दौरान, किसी भी वक्त पर ताली ना बजाएं।
2. कृपया सवाल पूछने वालों की गोपनीयता का आदर करें और मुड़ कर उन्हें देखने की कोशिश ना करें।